



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 07.01.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक खीरी की अध्यक्षता में "संपूर्ण समाधान दिवस" का आयोजन



आज दिनांक 07.01.2023 को माह के प्रथम शनिवार को जनपद के प्रत्येक तहसील स्तर पर "संपूर्ण समाधान दिवस" का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी खीरी, श्री महेन्द्र बहादुर सिंह व पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री संजीव सुमन द्वारा तहसील मोहम्मदी पर उपस्थित रहकर "संपूर्ण समाधान दिवस" की अध्यक्षता की गई। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर जनशिकायतों की निष्पक्ष जाँच करके विधिक निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध रूप से निस्तारण करने तथा जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है उन पर रिपोर्ट लगाकर सम्बंधित अधिकारी को प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने सर्किल की तहसीलों में उपस्थित रहकर जनशिकायतों का निस्तारण कराया गया।

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.01.2023 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 11/2023 धारा 2(ख)(1)/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तों महेश कुमार पुत्र महावीर व मुन्नेपाल पुत्र गौरीशंकर को बहद् ग्राम दुधवा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

महेश कुमार पुत्र महावीर निवासी ग्राम दुधवाथाना फूलबेहड़ जनपद खीरी
मुन्नेपाल पुत्र गौरीशंकर निवासी ग्राम दुधवा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त महेश कुमार उपरोक्त

मु0अ0सं0 539/2021 धारा 147/148/149/307/353/332/336/323/504/506/427 भादवि0 व 7
CLA Act थाना फूलबेहड़

मु0अ0सं0 540/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना फूलबेहड़
मु0अ0सं0 11/2023 धारा 2(ख)(1)/3 यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना फूलबेहड़

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुन्नेपाल उपरोक्त

मु0अ0सं0 539/2021 धारा 147/148/149/307/353/332/336/323/504/506/427 भादवि0 व 7
CLA Act थाना फूलबेहड़

मु0अ0सं0 11/2023 धारा 2(ख)(1)/3 यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना फूलबेहड़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुरेश चन्द्र, थाना फूलबेहड़
2. उ0नि0 अंकुर कुमार
3. का0 अनिरुद्ध यादव
4. का0 अंगद यादव
5. म0का0 गुड़िया चौधरी

थाना पलिया पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करके अभियुक्त हसीब खान पुत्र वारिस खान को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.01.2023 को थाना पलिया पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद करके अभियुक्त हसीब खान पुत्र वारिस खान नि० ग्राम छब्बा पूरवा मझगई थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में मु०अ०सं० 13/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

बरामदगी:-

- 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

हसीब खान पुत्र वारिस खान नि० ग्राम छब्बा पूरवा मझगई थाना पलिया जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ०नि० विनोद सिंह, थाना पलिया
- 2- हे०का० केशव गंगवार
- 3- का० अमित यादव
- 4- का० सुभाष चन्द्र सोनी
- 5- का० मनदीप कुमार

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1. थाना मितौली पुलिस द्वारा, अ0सं0 457/22 धारा 324/506 भादवि में वारंटी अभियुक्त हरिओम दीक्षित पुत्र चन्द्रभान नि0 कस्ता थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 30 लीटर अवैध शराब बरामद कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **30 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **01 शराब भट्टी** बरामद कर **02 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **02 अभियोग** पंजीकृत किए गए।